



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ.ग.)

नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त

Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur

Phone No. 07771-265026

Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

AQAR: 2021-22

7.1.6 Quality audits on environment and energy are regularly undertaken by the institution

Sl. No.	Documents	Page (From-to)
1	Scan copy of the Green & Energy Audit Report	02-44
2	List of Clean and Green campus initiatives	45
3	Documents of Clean and Green campus initiatives with photographs	46-54
4	List of beyond the college campus environmental promotion activities	55
5	Documents of beyond the college campus environmental promotion activities, photographs and media report	56-68


IQAC Coordinator
Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Korlya (C.G.)


Principal
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.-Korlya (C.G.)

ANANT PUROHIT & ASSOCIATES

Energy Consultant dedicated for energy efficiency

A-403, Palm Resorts
Near Bhawan's School
Saddu -492001
Raipur (CG)


GREEN & ENERGY AUDIT CERTIFICATE

This is to certify that M/s Anant Purohit & Associates has conducted Energy Audit of Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri, Dist – Koriya (C.G.) and submitted report under their policy for Green Campus of the institute.

Name of education institute	Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri Dis- Koriya (C.G.)
Contact details	Website: www.govtlaharipgcollege.in E-mail: govtlahiricollege@gmail.com 07771-265026
Name of Principal	Dr. R.K. Pandey
Details of facilities Audited	Office, All Departments, Laboratories, Classrooms, Seminar Halls, Library, Electrical Systems, Rain Water Harvesting systems etc.
Date of Audit Conducted	21 st , 22 nd & 23 rd September 2022
Name of the Certified Energy Auditor	Anant Purohit
Registration Number	EA-16538

For Anant Purohit & Associates

(Anant Purohit)



Certified Energy Auditor from Bureau of Energy Efficiency, Mistry of Power, Government of India, New Delhi – EA 16538

GREEN & ENERGY AUDIT REPORT
for
GOVT LAHIRI P. G. COLLEGE, CHIRIMIRI(2021-22)

ACKNOWLEDGEMENT

Anant Purohit & Associates is thankful for awarding the opportunity to conduct Energy Audit of **Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri Dis- Manendragarh-Chirimiri-Bhartpur (C.G.)** & for extending their valuable support & co-operation.

Anant Purohit & Associates also thankful to the official staff of **Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri Dis- Manendragarh-Chirimiri-Bhartpur (C.G.)** for their excellent co-operation & support during the conduct of energy audit study at the premises.



Anant Purohit & Associates
A-403, Palm Resorts
Saddu, Raipur (C.G.)

Address : A-403, Palm Resorts, Saddu, Raipur – 492001, C.G.
Mobile 1 : +91 8602374011
Mobile : +91 7999190954
e-mail : anant28in@gmail.com

GENERAL DETAILS REGARDING THE ENERGY AUDIT CARRID OUT

NAME AND ADDRESS OF THE BUILDING

WORKS	Govt. Lahiri P.G. College Chirmiri Building
CONTACT PERSON	Mr. R K Pandey
PERIOD OF AUDIT	21st Sep 2022 to 23rd Sep 2022
CONSUMER NUMBER	1000883956, 1000883957, 1000883958, 1000883959, 1000883960, 1003966892
TOTAL POWER FROM C.E.S.C. (Last One Year)	7966 kWh
MAXIMUM POWER CONSUMED IN ANY MONTH	1625 kWh (July 2021)
MINIMUM POWER CONSUMED IN ANY MONTH	50 kWh (Sep 2021)
THERMAL ENERGY CONSUMPTION	NIL

Energy Audit

Energy Management is a strategy of better energy conservation and preservation throughout the organizations using strategy of adjusting and optimizing energy.

Objective:

- Formulate possible plans and measures to be adopted and implemented in the college.
- Manage energy used at highest energy efficiency.
- Spot the inefficient or poor practice if any.
- Improve the energy preserving measures and methods.

Energy scenario:

- Electrical energy is supplied by Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited.
- There are total six energy meter catering the electrical demand of government Lahiri PG College Chirmiri.

Table 1. Energy Bill Analysis:

S.N.	Service Number	SAN load in watt	Tariff Category
1.	1000883958	520	LV2ND1SG21
2.	1000883959	560	LV2ND1SG21
3.	1000883960	720	LV2ND1SG21
4.	1003966892	1832	LV1DL1SG21
5.	1000883956	420	LV2ND1SG21
6.	1000883957	680	LV2ND1SG21

Table 2. Analysis of billings of meters of college premises:

	S.C.NO.	SAN load in watt	Average unit per month	2021 - 2022
2020 – 2021	B.NO.1000883958	520	46	103
	B.NO.1000883959	560	65	87
	B.NO.1000883960	720	100	100
	B.NO.1003966892	1832	50	50
	B.NO.1000883956	420	274	374
	B.NO.1000883957	680	100	51




Figure 1. Graphical representation of service consumer number with average unit consumption in the year 2020-21 and 2021-22.

Table 3. Connected Load of College Premises

Segment	Electrical equipment	Wattage	Quality	Total load in watt
Lighting	LED TL	20	79	1580
	FTL TL	40	59	2360
	LED Bulb	18	58	1044
	LED Bulb	07	06	42
	CFL	25	14	350
	Total lighting load			
HVAC	Ceiling Fan	80	233	18640
	Exhaust	200	10	2000
	Cooler	300	06	1800
	Air Conditioner	1600	02	3200
	Total HVAC Load			
Office Equipment	Computer	100	59	5900
	Printer	55	09	495
	Photocopy Machine	600	01	600
	Total office equipment			
Others	Submersible pump	750	01	750

	Water cooler (Filter)	300	04	1200
	Refrigerator	500	05	2500
	CRT/Screen	150	03	450
	Projector/Mark Board	150	08	1200
	Others			2300
	Total			8400
Total connected load in watt				46411
Total connected load in kilowatt				46.411

Table 4. Total annual energy consumption

Segment	Electrical equipment	Wattage	Quantity	Hours	No. of days	Diversity factor	Annual unit Consumption
Lighting	LED TL	20	79	6	210	0.4	796
	FTL TL	40	59	6	210	0.4	1189
	LED Bulb	18	58	8	210	1	1315
	LED Bulb	07	06	8	310	1	0.336
	CFL	25	14	6	210	1	2.1
HVAC	Ceiling fan	80	233	6	210	0.3	7046
	Exhaust	200	10	6	210	0.5	1260
	Cooler	300	06	4	120	0.5	432
	Air conditioner	1600	02	6	110	0.5	1056

Address : A-403, Palm Resorts, Saddu, Raipur – 492001, C.G.
 Mobile 1 : +91 8602374011
 Mobile : +91 7999190954
 e-mail : anant28in@gmail.com

ANANT PUROHIT & ASSOCIATES
ENERGY CONSULTANTS

Office equipments	Computer	100	59	6	210	0.1	743
	Printer	55	09	3	210	0.1	31
	Photocopy machine	600	01	2	210	0.25	63
Others	Submersible pump	750	01	½	70	1	26
		300	04	6	210	1	1512
	Water cooler (filter)	500	01	6	310	1	930
	Refrigerator	500	04	6	120	1	1440
	Refrigerator	150	03	8	310	0.3	335
	CRT/Screen	150	08	4	110	0.3	158
	Projector/Smart board						
	Other equipment						1000
Totnnual Energy Consumption in KWH							19335

Address : A-403, Palm Resorts, Saddu, Raipur – 492001, C.G.
 Mobile 1 : +91 8602374011
 Mobile : +91 7999190954
 e-mail : anant28in@gmail.com

Table 5. Segment wise connected load and their percentages

Segment	Total load in kilowatt	Load in percentage
lighting	5.376	11.58
HVAC	25.64	55.25
Office equipment	6.995	15.07
Other's	8.4	18.10




Figure 2. Segment wise connected load and their percentage.

Table 6. Segment wise annual unit consumption college premises

Segment	Annual unit consumption	Annual unit consumption percentage
lighting	3303	17.08
HVAC	9794	50.65
Office equipment	837	4.33
Other's	5401	27.94




Figure 3. Graphical representation of annual unit consumption in college premises:-

- The maximum share of connected load is HVAC i.e. -50.65%
- Total electricity consumption by college premises =19335

Table 7. Unit per month in academic year 2021-22


S. No.	Month	B.NO.					
		1000883958	1000883959	1000883960	1003966892	1000883956	1000883957
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	Jul 2021	70	72	0	50	1340	93
2	Aug 2021	43	36	0	50	286	57
3	Sep 2021	0	0	0	50	0	0
4	Oct 2021	57	92	0	50	656	84
5	Nov 2021	59	87	0	50	320	84
6	Dec 2021	40	86	0	50	346	64
7	Jan 2022	56	88	0	50	316	69
8	Feb 2022	59	84	0	50	0	76
9	Mar 2022	55	73	0	50	416	25
10	Apr 2022	46	65	0	50	625	52
11	May 2022	51	64	0	50	512	51
12	Jun 2022	52	61	0	50	446	52

EXECUTIVE SUMMARY

GLPG College, Chirmiri has entrusted Anant Purohit & Associates, Raipur with the responsibility of conducting energy audit at their premises. Anant Purohit & Associates conducted the study at GLPG College, Chirmiri on 21 – 23 September 2022.

State Electricity (By CESC) is the main source of energy in the GLPG College, Chirmiri for operation of various installed equipment. The average energy consumption is 683.83 KWh. The energy consuming equipment's in the building are:

- Lighting System
- HVAC
- Office Equipment
- Others



Lighting

The present energy consumption connected in the lighting system at **Govt. Lahiri P.G. College Chirmiri** is 5376 KWh. The major light fittings are of conventional T12 FTL, with choke.

We have worked for energy conservation in the lighting area. and selection of the option is left to the sole discretion of **Govt. Lahiri P.G. College Chirmiri**.

The calculated energy saving as per the data gathered regarding the usage, after applying the recommended measures is as below -:

Total saving 297.36 KWh (replacing all the conventional magnetic chokes with electronic ballast, as well as the 40 W tube rods with 36 W tube rods) which translates to huge annual saving in monetary terms. It shows that about 4.39% reduction in connected load for lighting systems.

Stand Alone Air Conditioning Units

One of the major energy consuming areas, of **Govt. Lahiri P.G. College Chirmiri**, are the air conditioners (ACs) & the present energy consumption by ACs is estimated to 2112 kWh per annum. The anticipated energy saving by replacing existing air conditioner with five star labeled air conditioners, with inverter technology is 413 kWh per annum which translates to a saving of 20% energy per annum.

FAN

The present connected load of ceiling Fans (233 having conventional regulator) is 18640 kWh/ annum. This have been recommended to be replaced by electronic regulators which minimize the energy losses in conventional regulators. The calculated energy saving as per the data gathered regarding the usage, after applying the recommended measures is 4114 kWh / year which transpose to 22% reduction in load.

INTRODUCTION

Preamble

In order to promote energy efficiency measures in the **Govt. Lahiri P.G. College Chirmiri**, The Energy audit conducted by Anant Purohit & Associates.

Introduction to Govt Lahiri P G College, Chirmiri

The regular office timings of the are 10:30 am to 5:30 pm & works for 6 days a week. is having 6 LT connection having BP no. 1000883956, 1000883957, 1000883958, 1000883959, 1000883960, 1003966892.

Scope of Work

The scope of the energy audit survey conducted in the building included the following:

1. Primary Data Gathering & Energy Utility Program

- Historic Data collection & analysis for setting up baseline energy consumption.
- Analysis of annual energy bill & energy consumption pattern.

2. Conduct Survey & Monitoring

- Measurement of Electrical loading of main motors /pumps/ fans/ blowers/ compressors/ Refrigeration/ air-conditioning / chillers / transformers etc
- Measurement of illumination levels.

3. Analysis of Energy Use

- Energy loss/ Waste analysis

4. Identification & Development of Energy Conservation (ENCON) Opportunity

- Conceive, development & refine Ideas
- Discuss analysis of Energy use & Review ideas suggested by unit personnel.
- Use brainstorming & value analysis Techniques.

5. Cost Benefit Analysis

Address : A-403, Palm Resorts, Saddu, Raipur – 492001, C.G.
Mobile 1 : +91 8602374011
Mobile : +91 7999190954
e-mail : anant28in@gmail.com

- Assess the technical feasibility, economic viability & prioritization of ENCON option for implementation.
 - Selection of most promising project/scheme.
 - Prioritization by low, medium & long-term measures.
6. **Reporting & presentation to**
- Documentation & report presentation

Energy Audit Methodology

We conducted the energy audit study in **Govt. Lahiri P.G. College Chirmiri** on 21-23 September 2022. As a part of study our team visited the premises for undertaking performance assessment of various energy consuming equipment installed in the building using sophisticated energy audit Instruments.

The following methodology was adopted for successful conduct of the Energy audit study.

- Monitoring of energy related parameters of various equipment using sophisticated & portable energy audit Instruments.
- Online measurement of operating data with various Instruments.
- Collection of details regarding electricity consumption in past, maximum demand & power factor.
- Discussion with concerned official to take note of energy conservation activities already undertaken, if any.
- Critical analysis of data collected during field visit.
- Identification of section with possible energy conservation potential & quantification of energy losses.
- Identification of suitable for reducing energy consumption.
- Preparation of financial analysis for recommended measures.

Instruments used for the Energy Audit

- 3 phase power analyzer –ALM-30– for power measurement
- Non- contact infrared thermometer (Temperature gun) – for temperature measurement
- Ultra-sonic Flow meter – for Liquid flow measurement
- Vane, flow anemometer, with temperature measurement, – for air flow measurement
- Digital humidity Meter – for Humidity measurement
- Digital Lux Meter
- Digital Tachometer

Address : A-403, Palm Resorts, Saddu, Raipur – 492001, C.G.
Mobile 1 : +91 8602374011
Mobile : +91 7999190954
e-mail : anant28in@gmail.com

ENERGY EFFICIENCY IN VARIOUS SYSTEMS

Lighting System

The lighting survey was carried out, throughout the building, using a Lux Meter. The majority of the area is illuminated by the use of, conventional FTL & CFL. The average lux maintained found to be either satisfactory or above satisfactory level. The details are tabulated below.

Lighting Load Inventory & Illumination Level

To determine the total lighting load, a physical count of light fixtures provided in different floors & sections of building was carried out. It was found during the survey that mainly 40 W fluorescent tubes light & 22 W compact fluorescent lamps are being used in the building.

The illumination level was also measured primarily at work planes at various rooms of the building. Care was taken to reduce the effect of day light while taking the measurements.

Based on the illumination level measurements in building, it was found that about 41.36 % of the measurement's points showed illumination levels in range of 100-200 lux & 33.33 % of locations measured were found to be less than 100 lux.

RECOMMENDATION FOR ENERGY CONSERVATION

1. Low-Cost Recommendation

Energy Conservation Scheme for Lighting

The conventional fluorescent tube lights (FTL) form a major portion of lighting, of the building. There are total 59 numbers of T12 size FTL lights, in the entire premises. Based upon the measurements and observations, made during the study, the following are the recommendations -:

- The average maintained lux. Is found to be at satisfactory level.
- There is scope and need for further, improvement through, proper distribution of the luminary, throughout the area.
- At presently, 40 W conventional tube rods are in use, the total wattage including the choke is around 57 watts per luminary. These conventional FTL can be replaced with LED tube light, which is a costlier option, with higher returns.
- Another much simpler and less costly option is to simply, replace all the conventional magnetic chokes with electronic ballast, as well as the 40 W tube rods with 36 W tube rods.
- The total wattage per fitting would be then reduced from 57 W to 40 W, i.e., saving of 17 watts per fitting.
- The above changes can be done with ease without the need to replace the fitting. Further this replacement would lead not only to more energy efficient operation but has many added advantages, as detailed below -:

ELECTRONIC BALLAST

Role of Ballast

In an electric circuit the ballast acts as a stabilizer. Fluorescent lamp is an electric discharge lamp. The two electrodes are separated inside a tube with no apparent connection between them. When sufficient

voltage is impressed on these electrodes, electrons are driven from one electrode and attracted to the other. The current flow takes place through an atmosphere of low-pressure mercury vapour. Since the fluorescent lamps cannot produce light by direct connection to the power source, they need an ancillary circuit and device to get started and remain illuminated. The auxiliary circuit housed in a casing is known as ballast.

Conventional Vs Electronic Ballasts

The conventional ballasts make use of the kick caused by sudden physical disruption of current in an inductive circuit to produce the high voltage required for starting the lamp and then rely on reactive voltage drop in the ballast to reduce the voltage applied across the lamp.

On account of the mechanical switch (starter) and low resistance of filament when cold the uncontrolled filament current, generally tend to go beyond the limits specified by Indian standard specifications.

With high values of current and flux densities the operational losses and temperature rise are on the higher side in conventional choke. The high frequency electronic ballast overcomes the above drawbacks.

The basic functions of electronic ballast are:

1. To ignite the lamp
2. To stabilize the gas discharge
3. To supply the power to the lamp

The electronic ballasts make use of modern power semi-conductor devices for their operation. The circuit components form a tuned circuit to deliver power to the lamp at a high resonant frequency (in the vicinity of 25 kHz) and voltage is regulated through an in-built feedback mechanism. It is now well established that the fluorescent lamp efficiency in the kHz range is higher than those attainable at low frequencies.

At lower frequencies (50 or 60 Hz) the electron density in the lamp is proportional to the instantaneous value of the current because the ionization state in the tube is able to follow the instantaneous variations in the current. At higher frequencies (kHz range), the ionization state cannot follow the instantaneous variations of the current and hence the ionization density is approximately a constant, proportional to the RMS (Root Mean Square) value of the current. Another significant benefit resulting from this phenomenon is the absence of stroboscopic effect, thereby significantly improving the quality of light output. One of largest advantages of electronic ballast is the enormous energy savings it provides. This is achieved in two ways. The first is its amazingly low internal core loss, quite unlike old fashioned magnetic ballasts. And second is increased light output due to the excitation of the lamp phosphors with high frequency. If the period of frequency of excitation is smaller than the light retention time constant for the gas in the lamp,

Address : A-403, Palm Resorts, Saddu, Raipur – 492001, C.G.
Mobile 1 : +91 8602374011
Mobile : +91 7999190954
e-mail : anant28in@gmail.com

the gas will stay ionized and, therefore, produce light continuously. This phenomenon along with continued persistence of the phosphors at high frequency will improve light output from 8-12 percent. This is possible only with high frequency electronic ballast.

INSTALLATION OF HIGH FREQUENCY (HF) ELECTRONIC BALLASTS IN PLACE OF CONVENTIONAL BALLASTS

New high frequency (28-32 kHz) electronic ballasts have the following advantages over the traditional magnetic ballasts:

- Energy savings up to 35%
- Less heat dissipation, which, reduces the air conditioning load
- Lights instantly
- Improved power factor
- Operates in low voltage load
- Less in weight
- Increases the life of lamp

The advantage of HF electronic ballasts, outweigh the initial investment (higher costs when compared with conventional ballast). In the past the failure rate of electronic ballast in Indian Industries was high. Recently, many manufacturers have improved the design of the ballast leading to drastic improvement in their reliability.

The life of the electronic ballast is high especially when, used in a lighting circuit fitted with a automatic voltage stabilizer.

2. Medium-Cost Recommendation

Energy Conservation Scheme through replacement with 5 star rated AC with inverter

All of the stand-alone air conditioners (Window Air Conditioners) are non-star rated, as they were installed before the star labeling scheme of BEE.

Star Labeling of Air Conditioners

Address : A-403, Palm Resorts, Saddu, Raipur – 492001, C.G.
Mobile 1 : +91 8602374011
Mobile : +91 7999190954
e-mail : anant28in@gmail.com

The star labeling program for air-conditioners, frost free refrigerators, tubular florescent lights, and distribution transformers began in May 2006 in a voluntary phase. In the air conditioner segment, 70% of the organized players adopted it in the voluntary stage, which prompted BEE to make it mandatory from January 2010.

How the Star-Labeling works

Refer to the below table. For Air conditioners, the star levels are categorized over a band of COP numbers. COP is the Co-efficient Of Performance, which indicates the amount of cooling capacity in watts the Air conditioner delivers for every watt of electrical energy consumed by it.


At present, for Air conditioners, the COP has to be minimum 2.5 to qualify for 1-Star rating. COP of 3.3 and above is 5-Star categories. BEE has plans to move up the energy efficiency level continuously every two years. The standards moved up from Table 0 to Table 1 in January 2012. Please refer Table 1 & 2 – going forward, today’s 5-Star level of 3.3 COP will be the 4-Star level from January 2014.

Table 0			Table 1			Table 2		
Jan 2010 - Dec 2011			Jan 2012 - Dec 2013			Jan 2014 – Dec 2015		
Star	Min	Max	Star	Min	Max	Star	Min	Max
1	2.3	2.49	1	2.5	2.69	1	2.7	2.89
2	2.5	2.69	2	2.7	2.89	2	2.9	3.09
3	2.7	2.89	3	2.9	3.09	3	3.1	3.29
4	2.9	3.09	4	3.1	3.29	4	3.3	3.49
5	3.1		5	3.3		5	3.5	

It is therefore recommended to replace the entire window and split air conditioners with 5 star rated air conditioners, preferably with inverter technology.

Inverter Air Conditioner

An inverter in an air conditioner is used to control the speed of the compressor motor to allow continuously regulated temperature. By contrast, traditional air conditioners regulate temperature by using a compressor that is periodically either working at maximum capacity or switched off entirely. Inverter-equipped air conditioners have a variable-frequency drive that incorporates an adjustable electrical inverter to control the speed of the motor and thus the compressor and cooling output.



A comparison of temperature regulation between traditional air conditioner and inverter air conditioner

The variable-frequency drive uses a rectifier to convert the incoming alternating current (AC) to direct current (DC) and then uses pulse-width modulation in an electrical inverter to produce AC of a desired frequency. The variable frequency AC drives a brushless motor or an induction motor. As the speed of an induction motor is proportional to the frequency of the AC, the compressors run at different speeds. A microcontroller can then sample the current ambient air temperature and adjust the speed of the compressor appropriately. The additional electronics add to cost of equipment and operation. Conversion from AC to DC, and then back to AC, can cost as much 4 - 6% in energy losses for each conversion step.

Eliminating stop-start cycles increases efficiency, extends the life of components, and helps eliminate sharp fluctuations in the load the air conditioner places on the power supply. Ultimately this makes inverter air conditioners less prone to breakdowns, cheaper to run, and the outdoor compressor is generally quieter than a standard air conditioning unit's compressor.

3. High-Cost Recommendation

Energy Conservation Scheme for Lighting of T12 Tube Rod by LED Tube

The most energy efficient scheme available today, is the replacement of the convention tube rods with magnetic choke, with LED tube rods. Retro-fitting types of rods are now available in the market which eliminates the need of replacing the light fixture.

LED Tube Light is an environment-friendly semiconductor lighting which possesses a number of advantages over the conventional ones. With general-standard design of the structure, LED tube can directly replace the

conventional fluorescent tube light without any external driver or electric power, and can be widely used in common interior lighting places.

Led tube, the latest products, it will eventually replace the high-pressure mercury lamp fluorescent lighting, high power LED fluorescent light source module posed by the white LED chips. The advantages, of long life, no flicker, no radiation, energy saving, environmental protection, are the advantages of the set of all fluorescent. LED tube save energy to 70%, have more life of more than 50,000 hours, i.e., more than 10 times the ordinary lamp and almost maintenance-free.

The advantages of LED fluorescent summarized as follows:

1. Green lighting the traditional fluorescent tubes containing mercury vapor, if the lamp is broken the mercury vapor will evaporate into the atmosphere, a great harm to human body. LED tube do not use mercury, and LED products not containing lead, has protective effects on the environment. LED tube lighting green lighting is recognized worldwide.
2. Photoelectric conversion rate, the traditional fluorescent lamp will produce large amounts of heat, LED tube is electricity all converted to light, will not cause waste of energy. Walls, clothes will not fade phenomenon.
3. Quiet and comfortable, no noise common fluorescent due to the use of starter. LED tube does not produce noise, most suitable for the use of sophisticated electronic equipment and the need for quiet occasions.
4. LED tube light is soft, no flicker. Traditional fluorescent lamps using alternating current per second will produce 100-120 times the strobe, the human eye look and feel very tired, LED lamps, AC direct conversion to DC, will not produce flicker, eye protection.
5. Adjustable voltage and a wide range with the voltage drop. The LED lamps can be lit when the voltage is low, which only causes the decrease in brightness, but can still start.
6. Longevity, energy-saving and low cost.
7. Sturdy solid, very safe.

CONCLUSION:

- The energy audit of **Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri Dis- Manendragarh-Chirimiri-Bhartpur (C.G.)** has been completed.
- We have measured, calculated and analyzed the energy consumption areas, pattern and the efficiency of the equipment's.
- We have given suggestions and recommendations for the areas identified with energy savings potential.
- We have provided the recommendation.

A few additional tips/ practices to be adopted for energy saving are :-

LIGHTING

- Turn off the lights when not in use
- Take advantage of daylight by using light-colored, loose-weave curtains on your windows to allow daylight to penetrate the room. Also, decorate with lighter colors that reflect daylight
- De-dust lighting fixtures to maintain illumination
- Use task lighting; instead of brightly lighting an entire room, focus the light where you need it.

COMPUTERS

- Turn off your office equipment when not in use. A computer that runs 24 hours a day, for instance, uses - more power than an energy-efficient refrigerator.
- If your computer must be left on, turn off the monitor; this device alone uses more than half the system's energy.
- Setting computers, monitors, and copiers to use sleep-mode when not in use helps cut energy costs by approximately 40%.
- Battery chargers, such as those for laptops, cell phones and digital cameras, draw power whenever they are plugged in and are very inefficient. Pull the plug and save.

- Screen savers save computer screens, not energy. Start-ups and shutdowns do not use any extra energy, nor are they hard on your computer components. In fact, shutting computers down when you are finished using them actually reduces system wear – and saves energy

AIR CONDITIONERS

- Prefer air conditioners having automatic temperature cut off
- Keep regulators at “low cool” position
- Operate the ceiling fan in conjunction with your window air conditioner to spread the cooled air more Effectively throughout the room and operate the air conditioner at higher temperature
- Seal the doors and windows properly
- Leave enough space between your air conditioner and the walls to allow better air circulation
- Use windows with sun films/curtains
- Set your thermostat as high as comfortably possible in the summer. The less difference between the Indoor and outdoor temperatures, the lower will be energy consumption.
- Don't set your thermostat at a colder setting than normal when you turn on your air conditioner. It will not cool any faster and could result in excessive cooling.
- Don't place lamps or TV sets near your air-conditioning thermostat. The thermostat senses heat from These appliances, which can cause the air conditioner to run longer than necessary.
- Plant trees or shrubs to shade air-conditioning units but not to block the airflow. A unit operating in the shade uses as much as 10% less electricity than the same one operating in the sun.

-----OOO-----



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी जिला-कोरिया (छ.ग.)

नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त

Affiliated to Sarguja University, Ambikapur
Email-govtlahiricollege@gmail.com

AISHE ID: C-9736

Phone No. 07771-265026

Website- www.govtlahiripcollege.com

Green Cum Environmental Audit

Introduction


The green audit aims to analyse environmental practices within and outside the college campuses, which will have an impact on the eco-friendly atmosphere. It is defined as systematic identification, quantification, recording, reporting and analysis of components of college environments. One of the great environmentalists Wangari Maathai has quoted that the environment and economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. Green audit regulates all such practices and gives an efficient way of natural resources utilization.

Goals of green Audit

- 1 Identification and documentation of green practices followed by college.
- 2 Analyze and suggest solution for problems identified.
- 3 Assess facility of different types of waste management.
- 4 Increase environmental awareness throughout campus.
- 5 Identify and assess environmental risk.
- 6 Motivates staff for optimized sustainable use of available resources.


Routine Green Practices

Every year college celebrates world environmental day, world water day and ozone day in the college campus. These programmes aim to create awareness among the students and college members. It gives knowledge about conservation and sustainable use of environmental resources. Several programmes are conducted through seminars, poster presentation, debates etc.



List of the plant of the college campus are below.....

s.n.	Common Name	Botanical Name	Family
01	Mango	Mangifera indica	Anacardiaceae
02	Narra tree	Pterocarpusindicus	Fabacea
03	Ganga imli	Pithecellobiumdulce	Fabacea
04	Thuja plant	Thujaoccidentalis	Cupressaceae
05	Balsam	Impatiens	Balsaminaceae
06	Chinese brake fern	Pterisvittata	Pteridaceae
07	Tulsi	Ocimumtenuiflorum	Lamiaceae
08	Rose	Rosa	Rosaceae
09	Ashoka plant	Saracaasoca	Fabaceae
10	Aloe vera	Aloe barbadensis miller	Asphodelaceae
11	Mehendi	Lawsoniainermis	Lythraceae
12	Guava tree	Psidiumguajava	Myrtaceae
13	Kaner plant	Cascabelathevetia	Apocynaceae
14	Oleander	Nerium oleander	Apocynaceae
15	Ber	Ziziphusmauritiana	Rhamnaceae
16	Sentry plant	Aganeamericana	Asparagaceae
17	Touch me not	Mimosa pudica	Fabaceae
18	Neem	Azadirachtaindica	Meliaceae
19	Gulmohar	Delonixregia	Fabaceae
20	Sal tree	Shorearobusta	Dipterocarpaceae
21	Champagne palm	Hiophorbeindica	Arecaceae
22	Sago palm	Cycasrevoluta	Cycadaceae
23	Desert rose	Adeniumobesum	Apocynaceae
24	Money plant	Epipremnumaureum	Araceae
25	Jungle geranium	Ixoracoccinea	Rubiaceae
26	Gudhal (China rose)	Hibiscus rosa-sinensis	Malvaceae
27	Tecoma	Tecomastans	Bignoniaceae
28	Copper leaf	Acalyphaindica	Euphorbiaceae
29	Brazil white angle	Brugmansiasuaveolens	Salanace



30	Bush clockvine	Thunbergia erecta	Acanthaceae
31	Red flag bush	Mussaenda erythrophylla	Rubiaceae
32	Singapore graveyard	Plumeria obtusa	Apocynaceae
33	Marigold	Tagetes	Asteraceae
34	Crown of thorns	Euphorbia milidas	Euphorbiaceae
35	Taro	Colocasia esculenta	Araceae
36	Papaya	Carica papaya	Caricaceae
37	Evergreen plant	Catharanthus roseus	Apocynaceae
38	Chandani	Tabernaemontana divaricata	Apocynaceae
39	Creeping juniper	Juniperus horizontalis	Cupressaceae
40	Moses-in-the cradle	Tradescantia spathacea	Commelinaceae
41	Sevanti	Chrysanthemum	Asteraceae
42	Reed canary grass	Phalaris arundinacea	Poaceae
43	Chilli	Capsicum frutescens	Solanaceae
44	Agia	Euphorbia thymaloides	Euphorbiaceae
45	Garden croton	Codiaeum variegatum	Euphorbiaceae
46	Garbera	Garbera jamesonii	Asteraceae
47	Purple allamanda	Allamanda blanchetii	Apocynaceae
48	Golden shower	Cassia fistula	Fabaceae
49	Song of india	Dracaena reflexa	Asparagaceae
50	Ming aralia	Polyscias fruticosa	Araliaceae
51	Chinese taro	Alocasia cucullata	Araceae
52	Bargad tree (Banyan)	Ficus benghalensis	Moraceae
53	Poinsettia	Euphorbia pulcherrima	Euphorbiaceae
54	Newzealand flax	Phormium tenax	Xanthorrhoeaceae
55	Bitter melon	Momordica charantia	Cucurbitaceae
56	River tamarind	Leucaevaleucocephala	Fabaceae
57	Bel tree	Aegle marmelos	Rutaceae
58	Peepal tree	Ficus religiosa	Moraceae
59	Jujube (Ber)	Ziziphus mauritiana	Rhamnaceae
60	Madar	Calotropis gigantea	Apocynaceae
61	Seasum tree	Dalbergia sissoo	Fabaceae
62	Yellow crown flower	Senna alata	Fabaceae

63	Peacock flower	Caesalpinioideae	Fabaceae
64	Hairy fig	Ficushispida	Moraceae

Total no. of plants = 64

Total no. of family= 32


Total no. of Angiosperms= 59

Total no. of Gymnosperms= 03

Total no. of Medicinal plant= 24

Total no. of Pteridophyta= 02

s.n	Angiosperms	Gymnosperms	Medicinal plant	Pteridophyta
01	Mango	Thuja plant	Tulsi	Narra tree
02	Ganga imli	Sago palm	Rose	Chinese brake fern
03	Balsam	Creeping juniper	Aloe vera	
04	Tulsi		Mehendi	
05	Rose		Guava tree	
06	Ashoka plant		Kaner plant	
07	Aloe vera		Oleander	
08	Mehendi		Ber	
09	Guava tree		Neem	
10	Kaner plant		Sal tree	
11	Oleander		Money plant	
12	Ber		Gudhal	
13	Sentry plant		Marigold	
14	touch me not		Papaya	
15	Neem		Evergreen plant	
16	Gulmohar		Garbera	
17	Sal tree		Bargad tree (Banyan)	
18	Champagne palm		Bitter melon	
19	Desert rose		Bel tree	
20	Money plant		Peepal tree	
21	Jungle geranium		Jujube (Ber)	
22	Gudhal(China rose)		Madar	



23	Tecoma		Seasum tree	
24	Copper leaf		Tulsi	
25	Brazil white angle			
26	Bush clockvine			
27	Red flag bush			
28	Singapore graveyard			
29	Marigold			
30	Crown of thorns			
31	Taro			
32	Papaya			
33	Evergreen plant			
34	Chandani			
35	Moses-in-the cradle			
36	Sevanti			
37	Reed canary grass			
38	Chilli			
39	Agia			
40	Garden croton			
41	Garbera			
42	Purple allamanda			
43	Golden shower			
44	Song of india			
45	Ming aralia			
46	Chinese taro			
47	Bargad tree (Banyan)			
48	Poinsdettia			
49	Newzealand flax			
50	Bitter melon			
51	Bel tree			
52	Peepal tree			
53	Jujube (Ber)			
54	Madar			



55	Seasum tree			
56	Yellow crown flower			
57	Peacock flower			
58	Hairy fig			
59	River tamarind			

Total no. of plants = 64

Total no. of family= 32

Total no. of Angiosperms= 59

Total no. of Gymnosperms= 03

Total no. of Medicinal plant= 24

Total no. of Pteriodphyta= 02



Environment Audit

Introduction

The environment audit aims to environment practices within and outside the college campuses. which will have an impact on the eco-friendly atmosphere.

Environment audit can be defined as systematic identification, quantification, recording, reporting and analysis of components of college environment.

Goals of environment audit

- 1 Identification and documentation of environment practices followed by college.
- 2 Analyse and suggest solution for problems identified.
- 3 Identify and assess environment risk.
- 4 To make our college campuses eco-friendly and sustainable.

How to make eco-friendly environment

- By installing Green plants in our college campus.
- Plastic tree zone.
- Avoid plastic cover in documents/ projects.
- Improving environmental standards.
- Developing an environment ethic and value system in young people.
- Making vehicle tree zone.



वमसो मा ज्योतिर्गम

पर्यावरण जागरूकता राष्ट्रीय सेवा संबंधित कार्यक्रम

सत्र-2020-21

मनुष्य को जीने के लिए शुद्ध जल, स्वस्थ्यवर्धक आहार और शुद्ध वायु की जरूरत है। अगर हम यह सब कुछ पाना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण को स्वच्छ, सहज कर रखना होगा। सीमित मात्रा में अपने दैनिक गतिविधियों को संपन्न करना होगा। जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। पर्यावरण जागरूकता में युवयुवियों की भूमिका महत्वपूर्ण होनी है। सत्र-2020-21 में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता की दिशा में विविध प्रयास किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. कोविड -19 के वैश्विक महामारी के दौर में जब देश व्यापी लाकडाउन चल रहा था और महाविद्यालय भौतिक विद्यार्थियों के लिए बंद था और विद्यार्थी अपने घर पर रह रहे थे ऐसे कठिन समय में स्वयं सेवक अपने घर पर रहते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहे। अगस्त माह में स्वयं सेवकों ने अपने घर और पड़ोस में वृक्षारोपण किया तथा पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया।
2. गाँधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2020 को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए महाविद्यालय परिसर में उगे गाजर घांस की साफ-सफाई का कार्य किया। स्वच्छता अभियान के साथ ही स्वयं सेवको ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने परिसर को हरा-भरा रखने का संकल्प लेते हुए कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्य किया।
3. पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए समय-समय पर नियमित कक्षाओं में छात्र-छात्राओं को बताया जाता है, साथ ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण हेतु दूसरों को जागरूक करने हेतु भी प्रेरित किया जाता है।

तमसो मा ज्योतिर्गमय

घर पर रहकर बृक्षारोपण अभियान
रचना

Date Page 05/07/20

शासकीय लाहिरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के मद्दय अपने घर पर रहते हुए बृक्षारोपण कार्यक्रम करें। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी स्वयंसेवक अपने घर अपना मुहल्ले के खाली जगह पर बृक्षारोपण करें और अपनी तस्वीर भेजें।

[Handwritten signature]

कार्यक्रम अधिकारी

[Handwritten signature]

PRINCIPAL

Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt. Koraa (C.G.)

PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt. Koraa (C.G.)



वृक्षारोपण कार्यक्रम

15 से 30 जुलाई 2022

कोविड-19 के कारण जारी लाकडाउन की वजह से महाविद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए बंद है। अतः हमने स्वयंसेवक छात्र अपने घर पर रहकर वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं।

निम्नलिखित स्वयंसेवकों ने अपने घर पर रहकर वृक्षारोपण किया -

1. अमित कुमार सिंह
2. सौरभ पाण्डेय
3. उदित सिंह
4. कुंदन कुमार
5. अमन बिलकरमा

(Handwritten signatures)
 Saurabh-
 Udit-
 Kunalan-
 Aman-


(Handwritten signature)
 कार्यक्रम अधिकारी

(Handwritten signature)
 प्राचार्य
PRINCIPAL
 Govt. Lahiri P.G. College
 Chirimiri, Distt.- Khera (C.G.)



गांधी जयंती - स्वच्छता अभियान

रचना



महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2021 को दोपहर 12 बजे से महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाएगा।

अतः इच्छुक स्वयंसेवक स्वच्छता अभियान में भाग लेना महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।

नोट - कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में रहते हुए भारत एवं विश्व सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य है।

[Signature]
कार्यक्रम अधिकारी

[Signature]
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt. - Koraput (O.O.)



गाँधी जयंती
कार्यक्रम विवरण

Date _____
Page 02/10/20

स्वच्छता एवं वृक्षारोपण

गाँधी जयंती के अवसर पर आज दिनांक 02/10/20 को शासकीय लाइव्री स्नाकोत्तर महाविद्यालय चिमनी की राज्यीय स्तर पर स्टाई के तत्वविभाग के महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने कला संघ परिसर, कपलिय परिसर और ग्र-चाल परिसर में काफी सफाई किया।

स्वच्छता अभियान के परचरत राक्षद पिता श्री महात्मा गाँधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा उनके जीवन दर्शन पर स्वयंसेवकों ने चर्चा किया। इस अवसर पर निम्नलिखित चर्चा हुई।

1. कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन के कारण इस समय सभी स्वयंसेवक अपने घर पर रह रहे हैं, सभी लोग अपने घर पर रहते हुए अपने आसपास स्वच्छता अभियान चलायें।
2. राक्षद पिता महात्मा गाँधी स्वच्छता पर विशेष अर देते थे और उरसीद करते थे कि हम सभी अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए स्वयं प्रयास करें।
3. इस अवसर पर उपस्थित सभी स्वयंसेवकों को संतुष्ट करने हेतु कार्यक्रम अधिकांनी डॉ. राम किशोर पाण्डेय ने कहा कि गाँधी-जयंती



हमारा राष्ट्रीय पर्व है। महात्मा गाँधी जी की
 विश्रुतियाँ सुनिये बाद इस धारी पर आती है।
 गाँधी जी ने अपने जीवन को समर्पण के लिए
 समर्पित कर दिया था। इस अवसर पर सभी स्वयंसेवकों ने
 महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण विभागा
 कार्यक्रम में उपस्थित स्वयंसेवक

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. शिशिर यादव | Shashir yadav |
| 2. अरुण कुमार | Arun |
| 3. ज्योतिराम निवासी | Jyotirami |
| 4. प्रिंस कुमार सिंह | Princesingh |
| 5. उपेन्द्र कुमार | उपेन्द्र सिंह |
| 6. कुंदन कुमार | Kundan |
| 7. अमर सिंह | AMAR SINGH |
| 8. विजय कुमार | विजय कुमार |
| 9. अमन विनयगर्ग | Aman |
| 10. शिशिर चंद्र | शिशिर |
| 11. सहदेव सिंह | सहदेव सिंह |
| 12. राहुल कुमार | Rahul |
| 13. संदीप कुमार गौड़ | Sandeep |
| 14. शुभम मिश्रा | शुभम |
| 15. शोभित कुमार | Shobhit |

[Signature]
कार्यक्रम अधिकारी

[Signature]
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.C. College
Gulmihal, Distt. - Koraput (C.G.)




Tree plantation by NSS students



Neat and clean office pedestrian and garden photos





Vehicle free zone of science block





OFFICE, PRINCIPAL, GOVT. LAHIRI PG COLLEGE

CHIRIMIRI, DIST. KORIYA C.G.

NAAC Accredited

Affiliated to Sarguja University, Ambikapur
Email-govtlahiripgcollege@gmail.com

Website- www.govtlahiripgcollege.org
Phone No. 07771-265026

College Code 3707

Sl.No./259 /Estd/2022

Chirmiri, Date: 25/09/2022




CERTIFICATE

Green cum Environmental Audit Certificate

Academic Year 2021-22

This is certifying that Govt. Lahiri P.G. College has conducted detailed green cum environmental audit of their campus and has submitted necessary data and credentials for scrutiny. The activities and measures carried out by the college have been verified based on the report submitted and was found to be satisfactory. The efforts taken by the faculty and students towards environment and sustainability are highly appreciated and commendable.

Members:

- 1 Mr. Virendra Kumar
Asst. Prof. (Botany)
NSS Incharge
Govt. Lahiri P.G. College, Chirmiri (C.G.)

- 2 Dr. Dhansay Dewangan
Asst. Prof. (Chemistry)
Govt. Lahiri P.G. College, Chirmiri (C.G.)

- 3 Shiva Kant Mishra Azad
Asst. Prof. (Botany)
Govt. Naveen College, Kelhari (C.G.)



IQAC Coordinator




Principal
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirmiri, Distt.-Korea (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ.ग.)

नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त

Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur


Phone No. 07771-265026

Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

Clean and Green Campus Initiatives

Sl. No.	Name of activity	Date
1	पर्यावरण जागरूकता विषय पर व्याख्यान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम	18.02.2022 to 19.02.2022


IQAC Coordinator
Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Korlya (C.G.)


Principal
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt. - Korea (C.G.)


सूचना

18/02/22

पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम










महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिरिक्त व्याख्याताओं एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासकीयलाइसे स्वातंत्रता महाविद्यालय चिरमिरी जिला-कोरिया के राष्ट्रीय लोकयोजना राई के तत्वावधान में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के तहत 'फिट इंडिया एंड सेव इन्वायरमेंट' अभियान से जुड़े हुए श्री सतीश कुमार दिवेंदी, वरिष्ठ रीडर एच. जी. एम कार्यलय मनेन्द्रगढ़ का व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। समस्त विधार्थियों को जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त व्याख्यान दिनांक 19/02/2022 को दोपहर 12.00 बजे से स्मार्ट कक्ष में आयोजित होगा।

अतः उक्त जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।


कार्यक्रम अधिकारी



PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt. Korea (C.G.)

समस्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राओं को सूचना —

क्र.	नाम	विषय	हस्ताक्षर
1	डॉ. राजनी सेठिया	अर्थशास्त्र	
2	डॉ. रामकिशोर पाण्डेय	हि.री	
3	उपप्राध्यापक सुंदर	वाणिज्य	
4	मीहिनी रावैर	वाणिज्य	
5	S.C. Chaturvedi	Physics	
6	Dr. Anandhama Crosswani	English	
7	Nirupatita Singh	English	
8	Mangya Rathi	Zoology	
9	Dr. Kavita Krishnamoorti	Zoology	

10. Vikas ku Tandekar.	Maths.	AR
11. Pooja Shrivastava	Chemistry	Pantay
12. V. K. Lahore	Chemistry	Shil
13. Ankita Jaiswal	Botany	Amiya
14. LAXMI	Botany	Gyani
15. Rashmita	Chemistry	Armita
16. Vipul	Economics	Chait
17. Arvind Kumar	Computer	Manoj
18. DR. Anshu Ram Mishra.	Political Science	Armita
19. Anuradha Sekhri	Sociology	A
20. Ram Narayan Pomika	Sociology	Armita
21. VIKAS Khasija	A.I. IT	Armita
22. Bhagwat Prasad Tomar	Hindi	Manoj

1. राहुल कुमार	B.A. II	Armita
2. साधु हर सिंह	B.A. II	Armita
3. विक्रम कुमार	B.A. II	Armita
4. सागर कुमार	B.A. II	Armita
5. Shewan Sh Singh	B.A. II	Armita
6. Jayash Kumar	B.A. II	Armita
7. Kisan Singh	B.A. II	Armita
8. Sanju Das	B.A. I.	Armita
9. Himanshu saku	B.C.A I	Himanshu
10. SURAJ KUREY	B.S.C. I	Armita
11. Jayush Samundre	B.S.C. I	Jayush
12. Korishna Yadav	B.S. 1st Year	Korishna
13. Pradeep Singh	B.A. 1st year	Armita
14. Mohanish	B.C. I Year	Mohanish
15. Toukid Akhtar	B. I year	Toukid



पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम

"फिट इंडिया एंड सेव इन्वायरमेंट"



















आज दिनांक 19/02/2022 को दोपहर 12 बजे से शासकीय लाइव्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी जिला - कोशी (द.ग.) की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में स्मार्ट कक्षा में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।


उक्त जागरूकता कार्यक्रम में श्री विष्णु शर्मा तहसीलदार चिरमिरी ने छात्र-छात्राओं एवं स्वयंसेवकों को पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से खेनाटकते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना आज आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संतुलन होने से हमारे लिए मर्यादा खतर पैदा होजाएगा। इसलिए आज पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं को करी आना होगा।

'फिट इंडिया एंड सेव इन्वायरमेंट' अभियान के तहत पूरे देश में साइकिल चलाकर जन जागरूकता अभियान चलाने वाले पर्यावरण प्रेमी, श्री सतीश कुमार दिवेदी ने छात्र-छात्राओं को अपने अनुभव से खबर दिया। श्री सतीश कुमार दिवेदी मने-इराठ से काठमांडू (नेपाल) तककी यात्रा साइकिल से कर चुके हैं। अपनी इस साइकिल यात्रा के अनुभव उन्होंने छात्र-छात्राओं के बीच साझा करते हुए कहा कि मेरी यह यात्रा पर्यावरण जागरूकता के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े महानगरों का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। आज सड़क का जन स्तर बढ़ रहा है। पैदों के लगातार चलने से कुछ वायु का खतरा पैदा होगा है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील की वे वृक्षारोपण अभियान से जुड़ें। प्रत्येक निवासी को अपने आस पास के लोगों को वृक्षारोपण हेतु अनुत्प्रेरित करना चाहिए साथ ही पानी पीने का उपयोग बंद कराना चाहिए जिससे पर्यावरण को फायदा पहुँचेगा। इस अभियान के सहाय्य प्रियंका की छात्र छात्राओं को पर्यावरण

जपान के उद्योग विभाग प्रचारक डॉ. कालो मिता ने हमें साक्षात् किया। कार्यक्रम का संयोजक और संचालक कार्यक्रम अधिकारी राम देवो डॉ. राम किशोर पाठक ने किया।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि -

1. विजय श्रीवास्तव (तस्मीरवार, विरमिरी) 
2. अशोक सिंह (राजस्थान विचार) 
3. अजय देवरी (इजिमियर (PMA) विभाग विरमिरी) 
4. विजय कुमार सिंह
5. डॉ. आराधना गोस्वामी 
6. डॉ. कविता संपन्न शर्मा
7. LAXMI 
8. Ankita Jaiswal 
9. Makini Rasthodi 
10. Anjali Rai 
11. Pooja Chivastava 
12. Priyambada Shukla 
13. Manjot Kumar Singh 
14. Vijay B. Singh 
15. Anjali Singh 
16. Bhagwati Prasad Tomle 
17. Ram Narayan Pooja 
18. DR. Uma Shankar Mishra 
19. Vikas Khatri 
20. Anjali Singh 



कार्यक्रम में उपस्थित छात्र - छात्रिकाएँ

क्र.	छात्र/छात्री का नाम	कक्षा	हस्ताक्षर
1.	Vivek Kaushik	B.Com. III	Vivek
2.	Rupesh Kumar	B.Com II	Rupesh
3.	SANJU DAS	B.A Ist year	Sanju
4.	Arun Singh	BCA 2nd year	Arun
5.	Piyush Kumar Gresh	B.A 1st year	Piyush
6.	Md Ishaque	B.A Ist year	Ishaque
7.	Arun Kumar	M.Sc - Ist year	Arun
8.	Durgesh chaturvedi	B.com. 1st year	Durgesh
9.	विद्यासागर राऊत	बी.ए. प्रथम वर्ष	Vidya
(10)	RAMESHWAR MAHARANA	B.Sc Ist year	Ramesh
(11)	Sumit	B.Sc. II nd year	Sumit
(12)	Raj Kumar Yadav	B.Com I st year	Raj
(13)	Manish Patel	B.com Ist.	Manish
(14)	Zaigam Hussain Gwarkhi	B.com Ist year	Zaigam
(15)	Narayan Gupta	B.COM Ist year	Narayan
(16)	SURAJ KURREY	BSc Ist year	Suraj
(17)	Aavishkar	B.Sc. I st year	Aavish
(18)	Krishna yadav	B.Sc. I st year	Krishna
(19)	Sumit Maharana	B.Sc. I st year	Sumit
(20)	Pragya Gupta	B.com. I st year	Pragya
21	Alka Bhanuwal	B.com I st year	Alka
22	Muskan Kesharwani	B.com I st year	Muskan
23	Sarika Rawal	B.Sc II nd year	Sarika
24	Muskan Diwan	B.sc II nd year	Muskan
25	Sandhya Nirmalkar	B.Sc. III rd year	Sandhya
26	Amruti malik	B.Sc. III rd year	Amruti
27.	Hareetun Nisha	B.Sc. III rd year	Hareetun
28	Jyoti Sahu	B.Sc. III rd year	Jyoti Sahu
29	Gracela Bano	B.Sc. III rd year	Gracela Bano
30	Vimla	M.A. I st	Vimla
31	Poojakashyap	M.A. I st	Poojakashyap
32	Pooja	M.A. I st	Pooja



33	Nicky Majhi	M.A. 1st Sem.	Nicky Majhi
34	Hema Kumari	M.A. 1st Sem.	Hema
35	Muskan Yadav	B.COM 1 st year	Muskan
36	Angali Nahale	B.COM 1 st year	Angali
39	Vansha Tamrakar	B. Com. I st year	Vansha
40	Deepthi Dalai	B. Com. I st year	Deepthi
41	Achana Yadav	B.Sc. I st year	Achana
42	Mariyam Zehra	B.A. I st year	Mariyam
43	Rushpa Nahak	B.A I st year	Rushpa
44	Ruchi Mishra	B.A I st year	Ruchika
45	Deepu Sondhaya	B.A. I st year	Deepu
46	Priya	B.A I st year	Priya
47	Jyoti	B.A I st year	Jyoti
48	Purvi Pandey	B.A I st year	Purvi Pandey
49	Jyotika Minj	M.Sc. I st Sem.	Jyotika
50	Poonam Gautam	— " —	Poonam
51	Tafin Nisha	— " —	Tafin
52	Mamda Lakota	— " —	Mamda
53	Asina Minj	— " —	Asina
54	Suraimadi	— " —	Suraimadi
55	Thisa Saw	— " —	Thisa Saw.
56	Sadiya Afrag	B.Sc. III year	Sadiya
57	Afrin Bee	— " —	Afrin
58	Shobana anjum.	B.Sc. III year	Shobana
59	Bechi Hatur	— " —	Bechi
60	Rosji	— " —	Rosji
61	PUSHPA	— " —	Pushpa
62	Shiwani Mazumdar	B.Sc. I year	Shiwani
63	Nisha Mazumdar.	B.Sc. III year	Nisha Mazumdar.
64	Aditi Sonawani	B.Sc. III year	Aditi
65	Uma	B.Sc. III year	Uma
(66)	Prinyanka Singh	B.Sc. III rd year	Prinyanka

- (67) Sonita B.Sc III year Sonita
- (68) Priyanka Singh B.Sc I year Priyanka
- (69) Divangi B.Sc III year Divangi
- 70) Piyali B.Sc III year Piyali
- 71) Naina Gupta B.Sc III Year Naina
- 72) Annapanti malik B.Sc III year Anna
- 73) Anshu Tiwari B.Sc III Year Anshu
- 74) Akanksha Yadav B.Sc III year Akanksha
- 75) Ankita Senveerka M.Sc Ist sem Ankita
- 76) Savita Khulwaha m.sc Ist sem Savita
- 77) Sadhana yadav m.sc Ist sem Sadhana
- 78) Anchara yadav m.sc Ist sem Anchara
- 79) Anjali Sharma M.Sc Ist sem Anjali
- 80) Housaba M.Sc Ist sem Housaba
- 81) Shivani m.sc - Ist sem Shivani
- 82) Richa Tiwari B.Sc Ist Richa
- 83) Shreya Mahwe B.Sc IInd Shreya
- (84) Kishna yadav B.Sc Ist Kishna
- 85) Gayatri kumari B.Sc. Ist Gayatri

स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया

लाहिड़ी कॉलेज में युवा दिवस मनाया, स्वच्छता व पौधरोपण कार्यक्रम हुआ

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

चिरमिरी. शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय चिरमिरी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान महाविद्यालय परिसर की साफसफाई की गई। प्राचार्य डॉ आरती तिवारी के संरक्षण और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ राम किंकर पाण्डेय के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने विज्ञान व वाणिज्य संकाय भवन में स्थापित स्वामी विवेकानंद, दादू लाहिड़ी की प्रतिमा के आसपास सफाई अभियान चलाया गया।



प्राचार्य डॉ तिवारी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके विचार युवाओं के लिए मार्गदर्शक संहिता की तरह हैं। कार्यक्रम अधिकारी डॉ पाण्डेय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का परचम विश्व में लहराया था। शिकागो विश्वधर्म संसद में उनके द्वारा दिया गया उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं के चरित्र

निर्माण और आत्मविश्वास भरने की आवश्यकता पर बल दिया था। युवाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अनुसंधान से ही नवीन भारत का निर्माण संभव है। स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान संदीप गौड़, प्रिंस कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चटर्जी, अमन कुमार, कुंदन कुमार, आशीष, अशोक, रोहित, मोहित, सौरभ पाण्डेय, शिवसागर, ज्योतिर्मय तिवारी, शालिग्राम द्विवेदी, शिवा साहू, डॉ रजनी सेठिया, सुभाष चतुर्वेदी, डॉ आराधना गोस्वामी, विजय लहरे, जय सिंह सारस्वत, डॉ उमाशंकर मिश्रा, रामनारायण पनिका आदि मौजूद थे।





कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ.ग.)

नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त

Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur

Phone No. 07771-265026

Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

Beyond the Campus Environmental Promotion Activities

Sl. No.	Name of activity	Date
1	सात दिवसीय एन.एस.एस. शिविर	25.03.2022 to 31.03.2022


IQAC Coordinator

Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Korlya (C.G.)


Principal

Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.-Korea (C.G.)

24/03/2022

सूचना

शासकीय लाहड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी की राष्ट्रीय सेवा योजना नकार द्वारा सभी स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुकुमुकी में सात दिवसीय विशेष अवकाशीय शिविर का आयोजन किया जाना है। जिसका उद्देश्य सभी ग्रामवासियों को पर्यावरण, जागरूकता, स्वच्छता जागरूकता है। से भगत करना है।

अतः सभी स्वयं सेवक 26/03/22 को महाविद्यालय में उपस्थित हों।



[Signature]
आदेशाधिकारी

कार्यक्रम अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी
शासकीय लाहड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी (वि.प.प.)

[Signature]
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirmiri, Distt. Korea (C.G.)

[Signature]

[Signature]
Anurita
Pasmik

Amrit

[Signature]
Rashmita


[Signature]
Soni

राष्ट्रीय फेक पोस्टर

विश्व कवालीय दिवस

स्वातंत्र्य - पंचायत सदन, ग्राम पंचायत मुख्यालय
जनपद पंचायत - जड़गांव, जिला - अजमेर

दिनांक 25/03/2022 से 31/03/2022 तक





जागरूकता रैली

26/03/2022

शांतीपलाहड़ी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी की दृष्टीपथ मेक योजना इमारत का
द्वारा दिवसीय विशेष आकाशिय शिविर ग्राम-पंचायत
मुमुक्षु के पंचायत भवन में चल रहा है,
शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवकों ने ग्राम
पंचायत, मुमुक्षु में शिविर के प्रथम दिवस
दिनांक 26/03/2022 को जागरूकता रैली का आयोजन
कर समस्त ग्रामवासियों को पर्यावरण जागरूकता,
स्वच्छता जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया।
इस दौरान स्वयंसेवकों ने पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता
जागरूकता के विविध नारे लगाए।

जागरूकता रैली में निम्नलिखित स्वयंसेवक
उपस्थित रहे -





















- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1 | प्रियंका कुमार सिंह |  |
| 2 | समीर कुमार निर्मलकर |  |
| 3 | रोहित | <u>Rohit</u> |
| 4 | अमन विभवर्मा | <u>Am</u> |
| 5 | कुन्दन | <u>Kundan</u> |
| 6 | मोहित यादव | <u>Mohit</u> |
| 7 | उपेन्द्र | <u>Upendro Singh</u> |
| 8 | शिवसागर | <u>Shivsaagar</u> |
| 9 | सौरभ पाण्डेय | <u>Saurabh</u> |
| 10 | मनीष पटेल | <u>Manish Patel</u> |
| 11 | रोहित | <u>Rohit</u> |
| 12 | उदित | <u>Udit</u> |
| 13 | आशीष | <u>Ashish</u> |
| 14 | विद्यासागर | <u>Vidya Saagar</u> |
| 15 | दुर्गेश | <u>Durgesh</u> |




श्रमदान कार्यक्रम

गोदग्राम भुक्तभुक्ती के पंचायत भवन में चल रहे सात दिवसीय क्विज प्रतियोगिता के इच्छे दिन दिनांक 27/08/2022 को सभी स्वयंसेवकों ने मिलकर श्रमदान किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने पंचायत भवन के सामने की भूमि का समतलीकरण का कार्य किया। श्रमदान कर सभी ने मिट्टी के टीलों से मिट्टी निकालकर गड्डे भरने का कार्य किया।

श्रमदान कार्यक्रम में निम्नलिखित स्वयंसेवकों ने सहभागिता दर्ज की -

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1 | शरित कुमार निर्मलकर |  |
| 2 | उपेंद्र सिंह |  |
| 3 | सोनीत श्रीवास्तव |  |
| 4 | अमन विश्वकर्मा |  |
| 5 | प्रियंका सिंह |  |
| 6 | कुन्दन |  |
| 7 | सौरभ |  |
| 8 | संदीप |  |
| 9 | रावेन्द्र |  |
| 10 | मोहित |  |
| 11 | मनीष |  |
| 12 | विद्यासागर |  |
| 13 | विशाल |  |
| 14 | आशीष |  |
| 15 | विद्यासागर |  |
| 16 | दुर्गा |  |
| 17 | अविनाश |  |
| 18 | मोहित |  |
| 19 | संदीप |  |
| 20 | सनीप |  |




शासकीय लाइटो स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी के श्रात दिवसीय विशेष अतिथीय शिविर के दौरान दिनांक 28/03/2022 को सभी स्वयंसेवकों ने पंचायत भवन परिसर एवं गांव के नल्लू पाँची सफाई-सफाई का कार्य किया। स्वयंसेवकों ने सफाई अभियान चलाकर गांववालों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान में निम्नलिखित स्वयंसेवक शामिल रहे -

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1 | रमेश कुमार निर्मलकर | |
| 2 | पुष्पित प्रिय | |
| 3 | उपेंद्र सिंह | |
| 4 | अमन विश्वकर्मा | |
| 5 | प्रियं सिंह | |
| 6 | सौरभ पांडेय | |
| 7 | शिवा साहु | |
| 8 | आशीष | |
| 9 | ललित | |
| 10 | योगेश | |
| 11 | रोहित | |
| 12 | शाहिक्राम | |
| 13 | उदित | |
| 14 | ज्योतिष सिवारी | |
| 15 | मोहित चाकव | |
| 16 | संदीप | |
| 17 | शिवराज | |
| 18 | विकास | |
| 19 | मनीष | |
| 20 | दुर्गेस | |
| 21 | आदर्श | |



गोदगम मुकमुकी में आयोजित हो रहे सातदिवसीय विशेष कावादीय शिक्षा के पांचवें दिन 30/03/2022 को राष्ट्रिय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने प्राथमिक शाला मुकमुकी के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। इसी दौरान स्वयंसेवकों ने प्राथमिक शाला में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को उनकी बकाओं में जमा पढ़ाया और पढ़ाकर उन्हें साक्षरता के महत्व के बारे में बताया। साक्षरता कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
उक्त साक्षरता कार्यक्रम में निम्नलिखित स्वयंसेवक उपस्थित रहे -

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) समीर कुमार निर्मलकर | |
| 2) रॉबिन् श्रीवास्तव | <u>Ronip</u> |
| 3) अपेक्ष सिंह | Apendra Singh |
| 4) अमन विश्वकर्मा | |
| 5) प्रियंका सिंह | <u>Priyanshu Singh</u> |
| 6) अमित | <u>Amit</u> |
| 7) आदेश | <u>Adesh</u> |
| 8) विमलेश भादव | Vignesh |
| 9) सौरभ | Saurabh |
| 10) शाकिर | |
| 11) उदित | <u>Udit</u> |
| 12) आशीष | Ashish |
| 13) मनीष | Manish |
| 14) शिवलाल | |
| 15) मनीष | मनीष |
| 16) मोहित | MOHIT |
| 17) विकास भादव | <u>Vikas</u> |
| 18) नीरज | <u>Neeraj</u> |
| 19) कुंदन | <u>Kundan</u> |






राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME
पुरुष इकाई क. 125
स्वयं सेवकों द्वारा
जागरूकता
शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय




राष्ट्रीय सेवा
सात दिवसीय
स्थान - ग्राम पंचायत भुकभु
दिनांक - 25.03.20
थीम - कोरोना



Chirimiri, Chhattisgarh, India
58MX+RR8, Kurasia, Chirimiri,
Chhattisgarh 497553, India
Lat 23.184631°
Long 82.349478°
25/03/22 05:34 PM









Chirimiri, Chhattisgarh, India
58MX+RR8, Kurasia, Chirimiri,
Chhattisgarh 497553, India
Lat 23.184631°
Long 82.349478°
25/03/22 05:33 PM





लाहिड़ी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन इकाई के सात दिवसीय आवासीय शिविर का शुभारंभ

(कलयुग का भारत)

चिरमिरी। शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी की राष्ट्रीय सेवा योजन इकाई के सात दिवसीय आवासीय शिविर का शुभारंभ गोद ग्राम भुकभुकी के पंचायत भवन में प्रोफेसर एम.सी. हिमधर जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजन की अध्यक्षता, चिरमिरी तहसीलदार श्री विप्लव श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य, भुकभुकी सरपंच सुरेंद्र कुमार सिंह के विशिष्ट आतिथ्य और कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राम किंकर पाण्डेय की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सात दिवसीय आवासीय शिविर के उद्घाटन अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों ने राष्ट्रीय सेवा योजन के प्रेरणास्रोत युगपुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की तत्पश्चात शिविर संयोजक कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राम किंकर पाण्डेय ने सभी अतिथियों के प्रति स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और शिविर योजन प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि चिरमिरी तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव ने कहा कि यह आवासीय शिविर सभी स्वयंसेवकों के लिए जीवन में अनुशासन, सेवा और श्रमदान के महत्व को सीखकर उसे जीवन में



आत्मसात करने का सुनहरा अवसर है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और शिविर के माध्यम से गाँव को जानने और जुड़ने का अवसर है जिससे शिविरार्थी प्रत्येक स्वयंसेवक लाभान्वित होंगे।

अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजन प्रोफेसर एम.सी. हिमधर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजन का यह आवासीय शिविर प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। रासेयो युवाओं का सबसे विशाल संगठन है जिससे जुड़कर युवा समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास

करते हैं। स्वच्छता, श्रमदान और विविध जागरूकता कार्यक्रम करके इन सात दिनों में स्वयंसेवक अपने गोदग्राम में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वास्तव में यह आवासीय शिविर स्वयंसेवक की रचनात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा को निखारने का एक माध्यम भी है। विशिष्ट अतिथि भुकभुकी सरपंच श्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह हमारे गाँव के लिए गौरव का विषय है कि लाहिड़ी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजन इकाई ने शिविर के लिए हमारे गाँव का चयन किया है, निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गाँव को

मिलेगा। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत करते हुए लाहिड़ी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजन इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राम किंकर पाण्डेय ने कहा कि आवासीय शिविर के माध्यम से स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजन की गतिविधियों को करीब से समझ सकते हैं साथ ही वे अपने जीवन में आत्मनिर्भरता का पाठ भी सीख सकते हैं। शिविर नायक मोहित यादव ने शिविर के दौरान आयोजित होनेवाले संपूर्ण कार्यक्रमों और गतिविधियों को संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम का सफल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ स्वयंसेवक प्रिंस कुमार सिंह ने किया। इस दौरान महाविद्यालय स्टाफविजय कुमार लहर, डॉ. उमार्शंकर मिश्रा, विकास खटिक, विजय बघेल, भागवत प्रसाद जांगड़े, गिरीश दास, मंजीत सिंह, फमाजुल मुस्तफ, आदित्य श्रीवास्तव, खीखराम, उमेश कुमार, सर्वजीत पटेल, शंकर यादव, संतोष साहू सहित स्वयंसेवक ज्योतिर्मय तिवारी, संदीप गौड़बादल, शालिग्राम द्विवेदी, शिवसागर, मोहित, रोहित कुंदन, अमन, उर्पेंद्र, सौरभ, मनीष, आशीष जिन्नेल आदेश आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सेवा योजन के सात दिवसीय आवासीय शिविर में स्वयंसेवक चला रहे जागरूकता अभियान

चिरमिरी। शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी की राष्ट्रीय सेवा योजन इकाई का सात दिवसीय विशेष आवासीय शिविर गोदग्राम भुकभुकी में आयोजित किया जा रहा है। आवासीय शिविर में स्वयंसेवक जागरूकता रैली के माध्यम से विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर ग्रामीणों के मध्य जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता जागरूकता, के साथ साथ नशा से दूर रहने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सभी स्वयंसेवक ग्रामवासियों को दे रहे हैं। इस संबंध में शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी के राष्ट्रीय सेवा योजन इकाई के कार्यक्रम अधिकारी और शिविर संयोजक डॉ. राम किंकर पाण्डेय ने



बताया कि यह शिविर पूर्णतः आवासीय है जिसमें एक सप्ताह तक स्वयंसेवक गाँव में रहकर विविध विषयों पर ग्रामीणों के मध्य जागरूकता अभियान चलाते हैं। जागरूकता अभियान में शिविर नायक मोहित यादव, वरिष्ठ स्वयंसेवक प्रिंस

कुमार सिंह, कुंदन, उर्पेंद्र, रोहित, ज्योतिर्मय तिवारी, शालिग्राम द्विवेदी, अमन, आशीष, सौरभ, शिवसागर, सनोज, मनीष, सचिन, शिवा, आदेश विक्रान्त, विद्यासागर, अद्वितीय, दुर्गेश, कैफ, आदि अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

लाहिड़ी कॉलेज के एनएसएस यूनिट का सात दिवसीय शिविर लगाया गया

ग्राम भुकभुकी में एनएसएस कैंप लगाया, स्वयं सेवक ग्रामीणों को जागरूक करेंगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

धिरमिरी. शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय धिरमिरी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की सात दिवसीय आवासीय शिविर गोद ग्राम भुकभुकी पंदायत भवन शुरू हुआ है।

मुख्य अतिथि धिरमिरी तहसीलदार किप्लव श्रीवास्तव ने कहा कि यह आवासीय शिविर सभी स्वयंसेवकों के लिए जीवन में अनुशासन, सेवा और श्रमदान के महत्व को सीखकर उसे जीवन में आत्मसात करने का सुनहरा अवसर है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और शिविर के माध्यम से गांव को जानने और जुड़ने का अवसर है। जिससे शिविरार्थी प्रत्येक स्वयंसेवक लाभान्वित होंगे।



कार्यक्रम में मौजूद लोग

जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजना प्रो एमसी हिमधर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का यह आवासीय शिविर प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। रासेयो युवाओं का सबसे विशाल संगठन है। जिससे जुड़कर युवा समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। स्वच्छता, श्रमदान और विविध

जागरूकता कार्यक्रम कर सात दिन में स्वयंसेवक अपने गोदग्राम में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विशिष्ट अतिथि भुकभुकी सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यह हमारे गांव के लिए गौरव का विषय है। लाहिड़ी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने शिविर के लिए हमारे गांव का चयन किया है। निश्चित रूप से इसका

लाभ हमारे गांव को मिलेगा। कार्यक्रम अधिकारी डॉ राम किशोर पाण्डेय ने कहा कि आवासीय शिविर के माध्यम से स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को करीब से समझ सकते हैं। साथ ही वे अपने जीवन में आत्मनिर्भरता का पाठ भी सीख सकते हैं। शिविर नायक मोहित यादव ने होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान स्वयंसेवक प्रिंस कुमार सिंह, किजय कुमार लहरे, डॉ उमाशंकर मिश्रा, विकास खटिक, विजय बघेल, भागवत प्रसाद जांगड़े, गिरीश दास, मंजीत सिंह, फयाजुल मुस्तफा, आदित्य श्रीवास्तव, खीखराम, उमेश कुमार, सर्वजीत पटेल, शंकर यादव, संतोष साहू सहित अन्य मौजूद थे।